

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India.**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 461 ] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 21, 1972/आश्विन 29, 1894  
No. 461 ] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 1972/ASVINA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October 1972

**S.O. 677(E).**—In pursuance of paragraph 1 of the First Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby determines that the number of seats allocated in the Central Council of Indian Medicine to each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems shall, in respect of the State of Haryana, be one seat for Ayurveda and one seat for Unani and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. F.3-9/69-A.E., dated the 10th August, 1971, namely:—

In the said notification, in the Table, under column 1, after the entry Gujarat and its connected entry in column 2, the following entries in columns 1 and 2 shall be made, namely:—

1	2		
	Number of seats for		
Name of State	Ayurveda	Siddha	Unani
Haryana	1	—	1

[No. F. 3-9/69-AE(Part II).]

M. K. KUTTY, Jt. Secy.

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1972

एस० नो० 677(अ).--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की प्रथम अनुसूची के पैरा 1 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अवधारित करती है कि भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के आवंटित स्थानों में से हरियाणा राज्य के लिए आयुर्वेद और यूनानी के एक एक स्थान होंगे और यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 3-9/69-ए०ई०, दिनांक 10 अगस्त, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में सारणी के कालम 1 के अंतर्गत गुजरात की प्रविष्टि और कालम 2 में इसमें संबंधित प्रविष्टि के बाद कालम 1 और 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख ली जाय :—

राज्य का नाम	स्थानों की संख्या		
	आयुर्वेद	सिद्ध	यूनान
हरियाणा	1	—	1

[सं० फा० 3-9/69-ए ई (भाग I

एम० के० कुट्टी, सयुक्त सचिव ।